



Sonam Seed Technologies Pvt.Ltd.

संशोधित सोयाबीन सोनम तेजस्वी

सोयाबीन खरीप मोसमी प्रमुख फसल है सोयाबीन मे २०% तेल व ४०% एक उच्च गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध रहता है, यह मानव अहार मे मुख्य चटक होकर डायबेटिस (मधुमेह) के रोगीयोंके लिए सबसे सुरक्षीत आहार है। सोयाबीन का उपयोग औद्योगिक उत्पादन टेट्रासायक्लिन, पेनिसिलीन जैसे उत्पादन मे किया जाता है। इसिलिए इस फसल को पश्चिम देशोंमे आश्चर्यीन और कामधेनु भी कहा जाता है।

- कृषी विशेषत : सोयाबीन सुधारित बुआई की विधी :**
- जलवायु :** सोयाबीन खरीप मौसम की मुख्य फसल है। साधारणत: जहाँ बारीश ६५० से ९०० मी.मी. होती है वहपर फसल अच्छी होती है। फसल के लिए तापमान २०^० ते ३५^० से. ३० उपयुक्त होता है।
- जमीन :** सोयाबीन फसल के लिए मध्यम जमीन व पाणी उपयुक्त निकसी वाली जमीन चाहिए। जमीन का पी. एच ६.५ ते ७.५ होना चाहिए। ज्यादा भारी जमीन मे पोथो की वृद्धी अधिक होती है इसलिए संभवत: सोयाबीन की बुआई भारी जमीन मे नहीं करनी चाहिए।
- जमीन की तयारी :** जमीन की गहरी जुताई करना चाहिए। जमीन को धुम समाने के पश्चात २-३ बार बख्खल एवं पाटा लगाकर जमीन मिट्टी को पुनर्दुसी कर लेना चाहिए। जिसे के पाणी की उतम निकसी हो सके। बोने के पूर्व अच्छी सड़ी गोबर खाद ८ से १० मे. टन / प्रति एकड़ जमीन मे डालकर अच्छी तरह मिलाए। इसे जमीन की उर्वर शक्ती बढ़ली है।
- बुआई का समय :** सोयाबीन की बुआई लगमग ७५ ते १०० मी.मी. बारीश होनेपर, जून १५ से १५ जुलै पूर्व होना चाहिए। बुआई का अंतर : लाईन से लाईन की दूरी ३० से ४५ से.मी. और पीथे से पीथे की दूरी ५ ते ८ से.मी. होनी चाहिए। बुआई करते समय बीज को ४ से ५ से.मी. से अधिक गहवाई बुआई नहीं होना चाहिए । साधारणत: पोथो की संख्या ५ से ६ लाख प्रति हेक्टर होना चाहिए। १५ जुलै पहले सोयाबीन के बुआई को घुस करे।
- बीज का मात्रा :** सोयाबीन का बीज दर २५ किलो ग्रॅम / एकर होना चाहिए। बुआई के पहले बीज को १.५ ग्रॅम थायरस या ५ ग्रॅम ट्रायकोडरमा (जैविक फफूंदनाशक) से बीज को उपचारित करना आवश्यक है।
- अंतरवर्तीय फसल :** सोयाबीन की १० लाईनों के बाद दो लाईन मूग या उड़ीत की बुआई करने से फसल की सुरक्षा और दर्यावृंथे के छिड़काव के लिए उपयुक्त होता है।

- जैविक उपचार :** प्रती १० किलो सोयाबीन बीज को २५० ग्रॅम रायडोक्लिम कल्चर से उपचारातील करनेसे सोयाबीन के जड़मो मे गोतोंकी संख्या मे वृद्धी होती है। जो की वातावरण की नत्र जनका सोशन कर पोथो की वृद्धी मे सहाय्यक होता है। जैविक उपचार से १५-२०% अधिक उपज बढ़ जाती है।
- रासायनिक खाद:** रासायिक खाद की मात्रा मिट्टी परिक्षण के आधार पर देना चाहिए। बुआई के समय २० किलो नत्रजन, ४० किलो फॉस्फरस, २० किलो पोटैश देना चाहिए। फॉस्फरस खाद की मात्रा सिंगल चुरर फॉस्फट के द्वारा देना चाहिए। जिसमे ११% सल्फर रहता है। जो की सोयाबीन की फलित्यो के विकास व दोनो मे तेल का प्रतिशत बढ़ता है।

- नींदाई, गुडाई :** फसल के आवश्यकता नुसार निंदाई, गुडाई कर के खरतपवार से मुक्त करना चाहिए। खरतपवार नियंत्रण हेतु बुआई के बाद व बीज अंकुशन के पहले पेंडीमिथोलिन ३० ई.सी.-२.५मी.लि. या अलॉक्वारि ५०ई. सी.-४लि प्रति हेक्टर २५०० से ३०० लि. पाणी मे अच्छीतरह मिलाकर के जमीन पर छिड़काव करे। फसल उतने के १५ से २०दिन बाद नींदाई, गुडाई करे। खेद को खरपतवार मुक्त रहे।
- सिंचाई व्यवस्थापन :** शाखाएँ निकलने, फुल आने कि अवस्था व फलीयो मे दाने भरते समय सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए। **फसल सुरक्षा:** एकांकुल किट प्रबंधन के निम्न उपचार अपनाता चाहिए। १) मुख्य फसल के आस पास अंडीं और छुरपमुळी को एक कतार लगाना चाहिए और उसपर टक्बाडु डली कीट, कम्बल डल्ली कीट हो तो उस का नियंत्रण करने के लिए किटकानाशक दर्याई छिड़काव करे। २) सोयाबीन की बुआई १५ जुलै तक करना चाहिए। ३) खेद मे परजीवी पक्षियों के बैठने हेतु ८ से १० स्थान छिय प्रति एकड़ के अनुसर लगाए। ४) पत्ते खानेवाले डल्ली के नियंत्रण के लिए एस.एन.पी.छेद विषाणु ५०० एई २० मि.ली. प्रति १० लिटर पाण्यात छिड़काव करना चाहिए। उपर दिई सभी उपयां करे के उपरांत किट व रोग नियंत्रण न होनेपर व किटों के आर्थिक नुकसान स्तर पर निम्नलिखीत सुझावो के अनुसार दर्याई का छिड़काव करना चाहिए।

अ.क्र.	किडीचे नाव	किटकानाशकांचे नाव	प्रमाण/१० लि. पाणी
१	पत्ते खानेवाली डल्ली (स्पोडोप्टेरा)	क्लोरोपायरीफॉस (२०%) किंवा किचनॉलफॉस (२५%)	२० मि.ली. या २० मि. ली
२	सेमीलुपर डल्ली	ट्रायझोफॉस (४० ईसी)	१५ मि.ली या
३	पत्ती छेदक डल्ली	किंवा प्रोफेन्तोफॉस (५०%)	२५ मि.ली.
४	गईल बीटल	मिथोमिल (४०%) किंवा	२० ग्रॅम या
५	तना छेदक डल्ली	इन्डोक्झाकाव (१४.५%) किंवा सायमेट्रोथीन (२.५%)	६ मि.ली. या ४ मि.ली.

अ.क्र.	रोगाचे नाव	बुरशीनाशकाचे नावे	प्रमाण/१० लि. पाणी
१	गेरूआ रोग	प्रोपीकोनॉल किंवा हेक्झाकोनॉझोल	१० मि.ली. या १० मि. ली
२	दूधवा रोग	कार्पर ऑक्सीकलोरोईड	२५ ग्रॅम
३	झुलसा रोग	डायथिन-एम-४५	२५ ग्रॅम
४	विषाणु रोग	डायमेटोएट-३० ईसी	१५ मि.ली.

*** कटाई :** सोयाबीन की फळीया को रंग पीला ताम्र होने पर फसल पकने की अवधीनुसार (९० से १०० दिन) कटाई करे। फसल कटाई मे देर होने पर फलीयो का तिडकना सुख्यात होती है।

*** महत्वपूर्ण सुचना :** बुआई से पहले बीज की बोरी मे दिए गए थायरम विषारी दर्याई से बीज उपचारीत करके बुआई करे बीज का उपयोग अगत्र, पशुआहार या खाद्य तेल के लिए न करे।

*** सुचना :** इस पत्रक मे दी गई सुचनाए व मार्गदर्शन कंपनीचे अनुसंधान केंद्र पर उगाई गई फसलो के परिणामो पर आधारित है। मुमि को प्रकरा प्रतिकुल मोसम, अपर्याप्त वर्षा, सूखा, खराब फसल व्यवस्थापन एवंम किट व रोगों के प्रकोपसे फसल उत्पादनपर विषरित परिणाम हो सकता है। इस बिज का प्रयोग केवल बुआई के लिए ही करे क्यु की यह बीज किटकानाशक दर्याईयुक्त होता है।

संशोधक, उत्पादक : सोनम सिड टेक्नॉलॉजीस प्रा.लि.

पत्ता : फ्लॅट नं. ९१, प्लॉट नं. ८१, सिल्वर ओक रेसीडेन्सी, गफुसनगर, माधापूर, हैद्राबाद ५०००८१



Sonam Seed Technologies Pvt.Ltd.

संशोधित सोयाबीन सोनम तेजस्वी

खरीप हंगामातील सोयाबीन हे कडेधान्य तसेच गाळीत प्रमुख पीक आहे. सोयाबीनमध्ये तेलाचे प्रमाणे २०% व प्रथिनाचे प्रमाण ४०% असल्याने मानवी आहारामध्ये अन्न्य साधारण महत्त्व प्राप्त झालेला आहे. सोयाबीन मध्ये विषम्य पदार्थ कमी प्रमाणात असल्यामुळे मधुमेहाच्या रोग्यांसाठी हा उत्कृष्ट आहार समजला जातो. सोयाबीनच्या उपयोगी औद्योगिक उत्पादनात टेट्रासायक्लिन, पेनिसिलीन सारखे जैविक तयार करण्यासाठी सुध्दा होतो म्हणून पाश्चात्य देशामध्ये सोयाबीनला ‘कामधेनु’ असे संबोधले जाते.

- हवामान :** सोयाबीन हे खरीप हंगामातील मुख्य पीक म्हणून पुढे येत आहे. साधारणत: ज्या भागात ६५० ते ९०० मी.मी. पर्जन्यमान विभागलेले असते तेथे हे पीक उत्तम येते, हे पीक २०० ते ३५० से.ग्रे. तापमानात चांगले वाढते.
- जमीन :** मध्यम व पाण्याचा चांगला निचरा होणारी आल्प व किल निक्षेपक ६.५ ते ७.५ पर्यंत असणारी जमीन जास्त भारी जमीनीत झाडांची कायिक वाढ जास्त होते. म्हणून शक्यतो भारी जमीन टाळावी.
- जमीनीची पूर्वमशागत :** जमीनीची चांगली खोलवर गांणणी करावी. जमीन चांगली तापल्यानंतर कुळक्याचा २-३ पाळ्या देहून जमीन चांगली सुसुध्शीत करून घ्यावी जेणे करून पाण्याचा निचरा चांगला होईल अन्ध्या सोयाबीनच्या उगवणीवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. पेरणीपूर्वी चांगले कुजलेले शेणखट ८-१० टन / प्रति एकरी कुळक्योद्धार केातीत मिसळवणे ह्या खेळती राहून, जमीनीची पोत सुधारण्यात मदत होईल.
- पेरणीचा अंतरात :** सोयाबीन पिकाची पेरणी ७५ ते १०० मी.मी. पाऊस पडल्यानंतर खरीपत १५ जून ते १५ जुलै पुर्वी करावी. पेरणीचे अंतर: दोन दोनहॉल अंतर ३० ते ४५ से.मी. व दोन झाडातील अंतर ५ ते ५ से.मी. ठेवावे पेरणी ४-५ से.मी. शक्यतो १५ जुलै पुर्वी संभव्यावी.
- विद्यायुक्त प्रमाण:** सोयाबीनचे एकरी ३६ किलो विद्याये लगाने. पेरणीपूर्वी विद्यायास १.५ ग्राम थायरम बुरशीनाशक किंवा १.५ग्रॅम टायकोडरमा (जैविक बुरशीनाशक) लावाणे आवश्यक आहे.

- अंतर पिके :** सोयाबीनच्या प्रत्येक १० ओळींनंतर २ ओळी मूग किंवा उडीत पेरल्याने पिक सरक्षणसाठी या ओळींतून फवारणी करणे सोयीचे होईल.
- जिवाणु संबंधक :** सोयाबीन हे हवेतून मुळावरील गादीमात्रक नत्राचे स्थिरीकरण करते, त्यामुळे स्वतःची नत्राची गरज स्वतः भागविते. जिवाणु संबंधके लावल्यामुळे उत्पादनात १५-२०% वाढ होते. मुळावर जास्तीत जास्त गादी येण्याकरिता पेरणीपूर्वी विशिष्ट रायडोक्लिम ज्यूपोनिक्म जिवाणु संधंधके लावणे आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रत्येक १० किलो विद्यायास २५० ग्रॅम रायगोवियम जिवाणु संबंधक लावावे
- रासायनिक खते :** माती परिक्षणानुसार खतांची मात्रा द्यावी. सोयाबीनला एकरी २० किलो नत्र, ४० किलो सुस्फुर, २० किलो पलाश लागते. ही संपूर्ण खाते पेरणीसोबत द्यावी स्फुरद खत हे सिंगल सुस्फु फॉस्फेट च्या माध्यमातून दिव्यास गंधकाची कमतरता भासणार नाही कारण सिंगल सुस्फु फॉस्फेट १०% गंधक असते.
- अंतरमशागत :** तणाच्या बदाबस्तासाठी पीक पेरणीनंतर, परंतु उगवण्यापूर्वी पेडिथिलिन ३०ई. सी-२.५लि. किंवा अलॉक्वारि ५०ई. सी-४लि. प्रति हेक्टरी २५० ते ३०० लिटर पाण्यामध्ये मिसळून जमीनीवर फवारवे, पीक उगवणीनंतर १० ते १५ दिवसांनी खुस्वणी व कोळणी करून शेेत ताम्रयुक्त करावे.
- पीक व्यवस्थापन :** पिकाला फांट्या फुटतांना फुलो-यात अस्तंताना व शेंगा भरतांना पावसने ताण दिव्यास पाण्याच्या पाळ्या द्याव्यात. पीक संरक्षण: एकांकिक व्यवस्थापन संकल्पनेचा वापर करावा, त्यासाठी १) मुख्य पिकाभवती एरंडी आणि सुदुईलुग या पिकाची एक ओळ लावावी आणि त्यावर तंबाखुवारी पाने खाणारी अटी आणि केराळ अटी याचा प्रादुर्भावग्रसत पाने अंडी / आळ्यासहोई नष्ट करावीत २) सोयाबीनची पेरणी जुलैच्या दुस-या आठवड्यापर्यंत करावीत. ३) एकरी ८-१० पक्षी धावे उभारावेत, ४) तबाखुवरील पाने खाण-या अळींवाली पेरणी ५-६ कामांध सापाले लावावेत, ५) पाने खाण-या अळींच्या (स्पोडोप्टेरा) व्यवस्थापनेसाठी एस्एलएनपीडी ५०० एलाई विषाणु २० मि.लि प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. वरील उपाय योजाना केल्यानंतरही किड व रोग नियंत्रणात न आल्यास व किडींची आर्थिक नुकसानीची पातळी ओलांडताच खालील प्रमाणे किटकशाकांची फावणी करावी.

अ.क्र.	किडीचे नाव	किटकानाशकांचे नाव	प्रमाण/१० लि. पाणी
१	स्पोडोप्टेरा (पाने खाणी अळी)	क्लोरोपायरीफॉस (२०%) किंवा किचनॉलफॉस (२५%)	किंवा २० मि. ली
२	टॅट अळी (सेमीलुपर)	ट्रायझोफॉस (४० ईसी)	१५ मि.ली किंवा
३	पाने पोखरणारी अळी	किंवा प्रोफेन्तोफॉस (५०%)	२५ मि.ली.
४	घडीभुंगा (गईल बीटल)	मिथोमिल (४०%) किंवा	२० ग्रॅम किंवा
५	खोंड माशी	इन्डोक्झाकाव (१४.५%) किंवा सायमेट्रोथीन (२.५%)	६ मि.ली. किंवा ४ मि.ली.

अ.क्र.	रोगाचे नाव	बुरशीनाशकाचे नावे	प्रमाण/१० लि. पाणी
१	तांबेरा रोग	प्रोपीकोनॉल किंवा हेक्झाकोनॉझोल	१० मि.ली. किंवा १० मि. ली
२	पानावरील टिपके	कार्पर ऑक्सीकलोरोईड	२५ ग्रॅम
३	करपा	डायथिन-एम-४५	२५ ग्रॅम
४	विषाणु	डायमेटोएट-३० ईसी	१५ मि.ली.

*** काढणी :** सोयाबीनच्या शेंगाचा रंग पिवळट तांबूस झाल्यानंतर जातीच्या पकळेच्या कालावधीनुसार १० ते १०० दिवसांत काढणी करावी. पीक काढणीस उशिर झाल्यास शेंग फुटण्यास सुरुवात होते.

- महत्वाच्या सुचना :** पेरणीपूर्वी विद्यायच्या पिबशी मधील थायरम विषारी औषधे लावूनच पेरणी करावी विद्याणांच्या उपयोग धान्य, जनावरसाठी किंवा खाद्य किंवा तेलासाठी करू नये.
- सुचना :** या परिपत्रकातील मार्गदर्शक सुचना कंपनीच्या संशोधन केंद्रावरील माहितीवर आधारित आहे. जमीनीचा प्रकार, प्रतिकूल हवामान, हंगाम आरुपे किंवा किफूड दर्जाचे पिक व्यवस्थापन आणि किड व रोगाचा प्रादुर्भाव यामुळे पिक उत्पादनावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. बियाणे, किटकनाशके व रोगनाशके विषारी औषधे लावलेली असतात म्हणून त्याचा वापर फक्त पेरणीसाठीच करावा.

संशोधक, उत्पादक : सोनम सिड टेक्नॉलॉजीस प्रा.लि.

पत्ता : फ्लॅट नं. ९१, प्लॉट नं. ८१, सिल्वर ओक रेसीडेन्सी, गफुसनगर, माधापूर, हैद्राबाद ५०००८१



Sonam Seed Technologies Pvt.Ltd.

Research Sonam Tejasvi

Soybean is a pulse and oil seeds crop generally grown in Kharif season. It poses high nutritional as it contains about 20% oil and40% high quality proteins, so it has got importance in the human diet and it has safest for diabetic patients. It is widely used in industrial production to produce different antibiotics such as tetracycline, penicillin, hence this crop is said to be "Wonder bean" and "kamdhenu" in western countries.

- Cultivation Practices:**
- Climate:** Soybean crop can be grown in Kharif season and now a day’s it emerging as a major kharif crop. This crop successfully grown where the rainfall distribution is in between 900mm. It grows satisfactorily in the temperature range of 25 to 35^०c , between 65to
- Soil:** The crop to be grown on soil should be light to medium and well-drained. Should have soil PH-6.5 to 7.5. Avoid heavy soil as it promotes excessive vegetative growth which leads to reduce the yield.
- Soil Preparation:** Deep ploughing should be done to bring the soil to fine tillih by repeated harrowing Incorporate well decomposed FYM 8 to 10 Tonnes/Acre during last harrowing to improve the texture of the soil.
- Sowing Period:** Sowing is generally done in the month of/after first fortnight when rainfall is 75 to 100mm or up to the first fortnight of July is the most appropriate time for soybean sowing.
- Sowing Distance:** The sowing should be done in lines of 30 to 45 cm a part. The plant to plant distance should be 5 to 8 cm. The depth of sowing should not be more than 4 to 5 cm. under optimum moisture condition. Complete the soybean sowing before 15th July, by keeping plant population up to 5-Glakh/ha.
- Seed Rate:** The seed rate should be 25kg /acre. Treat the seed with 1.5 gram. Thiram or 5.Deram trichoderma (Biological Fungicide) before sowing
- Inter Cropping:** it is easy to take the spraying operation if Soybean is intercropped with two lines of Mung or Udid for every 10 lines of Soybean,
- Bio-Fertilizer Treatment:** Soybean buildup the soil fertility by fixing large amount of atmospheric nitrogen through the root nodules, Which increases crop yield up to 15 to 20%. Hence the soybean fulfills its nitrogen requirement through nodulation. So treat the seed with 250g Rhizobium Japonicum culture per 10ksgseed.
- Fertilizer Application:** Apply fertilizer doves as per the recommendation of soil testing reports. Apply Basal dose, 20kg N, 40kg P and 20kg K during the sowing time as a basal dose. Phosphorus fertilizer should be given in the form of single superphosphate as it contains 11% sulphur which helps to develop the pod and to improve oil content.
- Inter Culture:** Keep the field weed free by means of weeding and hoeing to inhibit or to control the weed. Up to 15 to 20 days of sowing. Spray pendimithalin 30 EC 2.5 ltr or Alachtor 50EC4.0 Ltrin 250-300 Ltr water per hectare after sowing but before emergence of the crop. Water Management: Soybean crop generally does not require any irrigation during kharif season but if there is long dry spell at the time of critical stages of the crop growth during branching, flowering and pod formation one irrigation would be desirable.
- Crop Protection:** Follow the principle of **Integrated pest management concept**. 1) Raise the castor and sunflower crop around soybean crop as a trap crop. The caterpillar of the spodeptera and hairy caterpillar when feeds on the trap crop that insect should be collected and destroyed.2) Complete the soybean sowing up to first fortnight of July. 3) Install 8-10 bird perches in the field/acre. 4) Install 5-6 Pheromone Traps/Acre to attract male adult of tobacco caterpillar. 5) Spray the crop with SLNPV 500 LE 20ml in 10 liter of water to control spodoptera damage. If you followed all the above techniques but failed to keep the insect damage under Control and When the damage goes beyond the economic thresh hold level (ETL) you have to use the pesticide to control the pests as a fast remedy. Major Pests:

Sr.No.	Name of the	Name of the Pesticide	Dose 10 lit. of water
1.	Spodoptera	Chloropyriphos 20% or Quinalphos 25 %	20ml or 20ml
2.	Semilooper	Triazophos 40%	15ml
3.	Leaf Miner	or Profenolos 50%	25ml
4.	Girdle Beetle	Methomy 40% or	20
5.	Stem Borer	Indoxacarb 14.5% or Cypermethrin 25%	4ml

- Harvesting:** When Soybean crop matures, the leaves turn yellow and drop, Soybean pods are dry out quickly. Delay in harvesting causes shattering of pads. The crop generally matures in 90-100 days. Harvesting can be done by hand, breaking the stalks on the ground level or with sickle. Threshing can be done by mechanical thresher or by some conventional methods.
- Note:** Information given in this leaflet is based on the experiments conducted on our research farm. Sod type, adverse climatic condition and season, insufficient inferior crop management and attack of pests and may cause an adverse effect on crop production. Seeds contain in the bag are treated with unsectide fungicide poison. Hence, the seeds should be used for agriculture sowing purpose only
- Note:** treat the seed with thiram (poison) packet which is placed inside the bag before sowing. This seed is not for food, feed and oil purpose.

Produced, packed and marketed by : Sonam Seed Technologies Pvt.Ltd.
Address : Flat No. A1, Plot No. 81, Silver Oak Residency, Gafurnagar, Madhapur, Hyderabad 500081



Sonam Seed Technologies Pvt.Ltd.

పరిశోధన సోయాబీన్ సోనమ్ తెజస్వి

సోయాబీన్ ఒక పప్పుదీనును మరియు నూనెగింజల పంటగా ఖరీఫ్ సీజన్ సాధారణంగా పండించబడుతుంది. దీనిలో సుమారు 20% నూనె మరియు 40% నాణ్యమైన ప్రోటీన్లు ఉండటంతో ఇది అధిక పోషక విలువను కలిగి ఉంది. అందువల్ల ఇది మానవాళిలోని ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంది. మదుమేపా రోగులకు అత్యంత సురక్షితమైన ఆహారంగా పరిగణించబడుతుంది.

సోయాబీన్ పారిశ్రామిక ఉత్పత్తిలో విస్తృతంగా ఉపయోగించి ట్రైటాస్టెన్, పెసిసిలీన్ వంటి యాంటిబయోటిక్స్, తయారు చేస్తారు. అందుకే పాశ్చాత్య దేశాలలో ఈ పంటను "వండర్ బీన్" మరియు "కామధేను" అని పిలుస్తారు.

- సాగు పద్ధతులు:** వాతావరణం: 25°C నుండి 35°C ఉష్ణోగ్రత, 900 mm వర్షపాతం
- నేల:** తేలికపాటి నుండి మధ్యస్థ, బాగా కాలుష్యం లేని మట్టిలో సాగు
- pH:** 6.5 - 7.5
- భూమి తయారీ:** లోతైన దున్ను, చివరిలో 8-10 లున్నుల అప్స వరుస్తు కలపాలి
- విత్త సమయం:** జూన్ చివర లేదా జూలై మొదటి పక్షంలో విత్తడం ఉత్తమం
- విత్త దూరం:** వరుసల మధ్య: 30-45 సెం.మీ
- మొక్కల మధ్య:** 5-8 సెం.మీ
- లోత:** 4-5 సెం.మీ
- విత్తన పరిమాణం:** 25 కీలోలు/ఎకరం
- విత్తన పుద్ది:** ధైరమ్ లేదా ట్రైకోడర్మాతో పుద్ది చేయాలి
- జైవ నరుపులు:** 10 కీలోల విత్తనానికి 250 గ్రాములు రైజోబియం జపానికమ్
- వరుపుల మోతాదు:** టెస్‌నర్ డేస్: 20 kg N, 40 kg P, 20 kg K
- సాగురకం:** సింగిల్ సూపర్ ఫాస్ఫేట్
- అంతర్‌తర సాగు:** ప్రతి 10 ద్దైన సోయాబీన్‌కు 2 ద్దైన ముసన/ఉదచి తేయవచ్చు
- కూలి నిర్వహణ:** మొలకల ముందు పండిమధులిన 2.5 లీటరు/హెక్టారుకు పిచికారీనిటీ నిర్వహణ:సాధారణంగా అవసరం లేదు, పొడి కాలంలో ఒకసారి పారు సమయం వద్ద నీరు
- తెగుళ్ళు నివారణ:**
- ట్రాప్ క్రాప్‌లు:** కాస్టర్, సన్‌పప్పుపత్తి వేరికాలు: 8-10 పరికరాలు/ఎకరం, ఫెరోమోన్(ట్రాప్): 5-6/ఎకరం SLNPV పిచికారీ: 20ml/10 లీటరు సీటికి

తెగుళ్ళు నివారణ మందులు:

వర్గ. నెం.	తెగులు	మందు పేరు	మోతాదు (10 లీటర్లకు)
1.	స్పొడాస్పెరా	కోరోపైరిఫాస్ 20% లేదా క్లోస్ట్రొనాస్ 25%	20 మి.లీ.సె.మీ
2.	సెమీలుపర్	ట్రైయూజోఫాస్ 40% లేదా ట్రాస్సెన్ఫాస్ 50%	15 మి.లీ
3.	లీఫ్ మైనర్	మెథిమెట్ 40%, అండ్‌స్కోకార్బు 14.5%	25 మి.లీ
4.	గిర్డల్ బీటీట్	సెస్పెర్మెట్రిన 25%	20 మి.లీ
5.	స్టెమ్ బోరర్	సెస్పెర్మెట్రిన 25%	4 మి.లీ

వర్గ. నెం.	వ్యాధి పేరు	మందు పేరు	మోతాదు (10 లీటర్లకు)
1.	దృష్	ట్రోపికోనాజోల్ లేదా హెక్సాకోనాజోల్	10 మి.లీ
2.	లీఫ్ స్పాట్	కాస్పర్క్సేట్రిడ్	25 గ్రాములు
3.	బ్లైట్	డిథేన్ 50%ED	25 గ్రాములు
4.	మోజిక్	డైమెథేట్ 30EC (తేలు ద్వారా వ్యాపనం)	15 మి.లీ

- కోత:** సోయాబీన్ పంట పరిపక్వతకు రాగానే, అత్యులు పసుపు రంగులోకి మారి జారిపోతాయి. గుబ్బలు వేగంగా ఎండిపోయి పొడిగా మారతాయి. కోతను అలస్యం చేస్తే గింజలు విడిపోవడమ జరుగుతుంది. సాధారణంగా పంట 90 నుండి 100 రోజులలో పరిపక్వతకు చేరుకుంటుంది. కోతను చేతితో, భూమి మట్టానికే దగ్గరగా కాండాన్ని కోసి లేదా కంచతో (సికిల్తో) చేయవచ్చు. ధాన్యాన్ని పడకట్టడం యాంత్రిక శ్రమలో దారా లేదా సుంపదాయ పద్ధతుల ద్వారా చేయవచ్చు.

గమనిక: ఈ లీఫ్ లెట్‌లో ఇప్పటివరకే సమచారం మా పరిశోధనా ఖైతంలో చేసిన ప్రయోగల ఆధారంగా మ్లాతమే. మట్టి రకాలు, ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులు, సరైన కాలం కాకుండా సాగు చేయడం, అబలమైన పంట నిర్వహణ మరియు తెగుళ్ళు దాడులు పంట దిగుబడిపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపవచ్చు.బ్యాగ్‌లో ఉన్న విత్తనాల క్రమికుంపొకరి పరిశుద్ధి విషవదార్పంతో పుద్ది చేయవద్దాయి. కాబట్టి ఈ విత్తనాలను వ్యవసాయ సాగు కోసం మ్లాతమే ఉపయోగించాలి.

గమనిక: విత్తనాన్ని విత్తేముండు, బ్యాగ్‌లో ఉంచిన ధైరమ్ (ఏవ వదార్పం) ప్యాకెట్‌తో పుద్ది చేయాలి. ఈ విత్తనం ఆహారం, మేత లేదా నూనె తయారీకి ఉపయోగించకూడదు.

తయారీ,ప్యాకెట్ మరియు మార్కెటింగ్ చేసిన పారు:

సోనమ్ సీడ్ టెక్నాలజీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, ప్లాట్ నెం. 01, ప్లాట్ నెం. 81, సిల్వర్ ఒక్ రెసిడెన్షియ్ గఫూర్ నగర్, మాధాపూర్, హైదరాబాద్ –500081.